



□□□□□□□ □□□□□□□□□□

नई दिल्ली □ समाजसेवक अण्णा हजारे ने आंदोलन के नाम पर जमा हुए धन का 'आप' नेता केजरीवाल से ब्योरा मांगा और अपना नाम किसी भी तरह से इस्तेमाल न करने की हदियत दी □ इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि आंदोलन का पैसा आंदोलन में खर्च हुआ है पार्टी या चुनाव में नहीं □

अण्णा हजारे ने रविवार को केजरीवाल को पत्र लिख कर चिंता जताई कि पार्टी कोष और उन पर सवाल उठ रहे हैं □ अण्णा ने आंदोलन के समय इकट्ठा हुए पैसों का ब्योरा मांगा और कहा कि इसके आप के चुनाव में खर्च नहीं किया जाना चाहिए □ जनलोकमाल और व्यवस्था परिवर्तन के संसद का काम बताते हुए अण्णा ने कहा कि यह काम विधानसभा का नहीं है □

इसके जवाब में केजरीवाल ने अपनी पार्टी के खाते और अण्णा हजारे को मिले दान के बारे में लगे आरोपों की स्वतंत्र और खुली जांच कराने का प्रस्ताव किया □ आप संयोजक ने कहा कि मैं अण्णा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे न्यायमूर्त संतोष हेतु सहित जिससे भी चाहें व्यापक जांच करा लें और रिपोर्ट के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक कर दिया जा □ ताकि कांग्रेस और भाजपा में से कोई भी कोष को लेकर लोगों में भ्रम नहीं पैलाने पा □ उन्होंने पाई-पाई का हिसाब जनता के सामने रखने की बात कही □

उन्होंने कहा कि अगर वे दोषी पा जाते हैं तो वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे और चुनाव मैदान छोड़ देंगे □ लेकिन अगर मैं निर्दोष साबित होता हूँ तो अण्णा हजारे को यहां आकर हमारी पार्टी के ली □

प्रचार करना चाहिए □ हजारे ने अपने पत्र में इन आरोपों का जिक्र करने के साथ ही यह भी उम्मीद भी जताई है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है □ साथ ही यह भी कहा है कि चूंकि ऐसी अपवाद हैं इसलिये यह जरूरी है कि केजरीवाल की ओर से इसका स्पष्टीकरण मिले □ हजारे अपना नाम इस्तेमाल नहीं करने की हदियत भी दी □ इस पर केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि आप चुनाव में हजारे के नाम का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं कर रही है □ न फ़िल्म में न टोपी में न किसी दूसरी प्रचार सामग्री में □

आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि यह घटना भाजपा की हताशा का परिचायक है □ भाजपा ने इसे नमिन स्तर की राजनीतिकार दिया है □ भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह घटना राजनीति है □ उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि इसमें कांग्रेस या फिर आप के किसी का हाथ हो □ यह जांच का विषय है □